

## भारतीय नर्सिंग कॉलेजों का अवलोकन

### प्रलिस के लिये:

नर्सों का जनसंख्या अनुपात, [राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल](#), [लैंगिक सूचकांक](#), [वशिव स्वास्थ्य संगठन](#), स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में भारतीय राज्यों के बीच असमानताएँ

### मेन्स के लिये:

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संभावनाएँ, [भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े मुद्दे](#), [स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हालिया सरकारी पहल](#)

## चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य मंत्रालय के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत के 40 प्रतिशत जिलों में नर्सिंग कॉलेजों का अभाव है। इसके अलावा देश के 42% नर्सिंग संस्थान दक्षिण के पाँच राज्यों में हैं, जबकि पश्चिम के तीन राज्यों में 17% हैं।

## नर्सिंग सेवाओं की वर्तमान स्थिति:

- भारत में वर्तमान में लगभग 35 लाख नर्स हैं, लेकिन इसका नर्स और जनसंख्या अनुपात **3:1000** के वैश्विक बेंचमार्क के मुकाबले केवल **2.06:1000** है।
- **स्नातक नर्सिंग शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या में वर्ष 2014-15 के बाद से 36% की वृद्धि हुई है**, जिसके परिणामस्वरूप नर्सिंग सीटों में **40% की वृद्धि दर्ज की गई है**।
  - वर्तमान में लगभग **64% नर्सिंग कार्यबल केवल आठ राज्यों में प्रशिक्षित है**।
- **42% नर्सिंग संस्थान पाँच दक्षिणी राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में केंद्रित हैं**।
  - जबकि **17% पश्चिमी राज्यों- राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में हैं**।
  - केवल **2% नर्सिंग कॉलेज पूर्वोत्तर राज्यों में हैं**।
- नर्सिंग कॉलेजों की वृद्धि दर मेडिकल कॉलेजों की 81% की वृद्धि दर से काफी कम है, वर्ष 2014-15 के बाद से स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर क्रमशः 110% तथा 114% हो गई है।

## वैश्विक आँकड़े:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, **वैश्विक स्तर पर पुरुष और महिला नर्सिंग एवं मडिवाइफरी कार्यबल की संख्या लगभग 27 मिलियन है**, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य कार्यबल का लगभग 50% है।
- वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, विशेष रूप से नर्सों और दाइयों की, जो स्वास्थ्य कर्मियों की मौजूदा कमी का 50% से अधिक है।
- नर्सों और दाइयों की सबसे अधिक कमी दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में है।

## कॉलेजों की कमी का कारण:

- **न्यूनतम स्वास्थ्य बजट**: स्वास्थ्य क्षेत्र पर भारत का व्यय वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 1.35% हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में इसे सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% रखने का लक्ष्य रखा गया था।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा**: नर्सिंग/सार्वजनिक क्षेत्र में मानव संसाधन, अस्पतालों और नदिन केंद्रों में सेवाओं की आपूर्ति की अत्यधिक कमी, जो राज्यों के बीच तथा राज्य के भीतर असमान उपलब्धता के कारण और भी दयनीय हो गई है। उदाहरण के लिये **मलिनानाडु जैसे एक अच्छी स्थिति वाले राज्य में भी सरकारी सुविधाओं में चिकित्सा एवं गैर-चिकित्सा पेशेवरों की 30% से अधिक की कमी है**।
- **कार्यभार और स्टाफिंग के मुद्दे**: भारत में नर्सों को कार्य के अत्यधिक बोझ, लंबी कार्य अवधि के साथ कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ता है। इस कारण न केवल मरीजों की देखभाल पर असर पड़ता है बल्कि नर्सों को थकान और उनमें कार्य को लेकर असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न होती है।

- **कम प्रतपूर्ति और नौकरी की असुरक्षा:** उनके कार्य की मांग के बावजूद नर्सों को आमतौर पर अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की तुलना में कम वेतन दिया जाना।
- **लैंगिक मानदंड और सामाजिक कलंक:** भारत में नर्सिंग को पारंपरिक रूप से महिला-प्रधान पेशे के रूप में देखा जाता है, जसिने कुछ लैंगिक मानदंडों और सामाजिक कलंक को बरकरार रखा है।
- **ग्रामीण-शहरी वषिमताएँ:** ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग का बुनियादी ढाँचा शहरी केंद्रों की तुलना में पछिड़ा हुआ है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को अक्सर कुशल नर्सिंग स्टाफ को आकर्षित करने तथा उसे बनाए रखने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

## भारत में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के उपाय:

- **स्वास्थ्य देखभाल में नविश:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में इसे सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% रखने का लक्ष्य रखा गया था।
- **नर्सिंग शिक्षा और प्रशिक्षण:** पाठ्यक्रम को नवीनीकृत करके आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाकर और पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करके नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है।
- **छात्रवृत्ति कार्यक्रम और प्रोत्साहन:** इस पेशे में अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने हेतु नर्सों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम और वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करना।
- **जन जागरूकता अभियान:** नर्सिंग पेशे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इसके महत्त्व को बढ़ावा देने के लिये जन जागरूकता अभियान शुरू करना।
- **भर्ती और प्रतधारण:** स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल में नर्सिंग पेशेवरों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने के लिये रणनीतियों को लागू करना। नर्सों को पेशे में बने रहने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु प्रतसिपर्द्धी वेतन, लाभ, कॅरियर विकास के अवसर तथा एक उचित कार्य वातावरण प्रदान करना।
- **टेलीमेडिसिनि और प्रौद्योगिकी:** स्वास्थ्य देखभाल पहुँच और वितरण में सुधार के लिये टेलीमेडिसिनि एवं डिजिटल स्वास्थ्य समाधान अपनाना।
- **नर्सिंग संगठनों के साथ सहयोग:** नर्सिंग बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये प्रभावी नीतियों और योजनाओं का निर्माण एवं उन्हें लागू करने के लिये सरकारी निकायों, स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों तथा नर्सिंग संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

## सरकार के प्रयास:

- बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से स्थापित वर्तमान के 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जाएंगे।
- केंद्र ने राज्यों को नर्सिंग कॉलेज खोलने की एक नई योजना के साथ क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का निर्देश दिया।

## स्वास्थ्य सेवा से संबंधित वर्तमान सरकारी योजनाएँ:

- [राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन](#)
- [आयुषमान भारत](#)
- [प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना \(AB-PMJAY\)](#)
- [राष्ट्रीय चकितिसा आयोग](#)
- [PM राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम](#)
- [जननी शशि सुरक्षा कार्यक्रम \(JSSK\)](#)
- [राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम \(RBSK\)](#)

## आगे की राह

- आवश्यक उपायों को लागू करके भारत अपने नर्सिंग संबंधी बुनियादी ढाँचे और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मज़बूत कर सकता है तथा देश की आबादी की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इससे स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार एवं नर्सिंग कार्यबल अधिक मज़बूत होगा।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

???:

प्रश्न. “एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनविर्यता होने के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है। वशिलेषण कीजिये। (2021)

[स्रोत: द हद्वि](#)

